

बन्दनवार



८१३.३१
शम्भु/ब

विश्वनाथ

सूर्याल सक्सेना

बन्दनवार

[कहानी-संग्रह]



लेखक

शम्भूदयाल सक्सेना



प्रकाशक

रमेशचन्द्र वर्मा

नवयुग-ग्रन्थ-कुटीर,

फर्रुखाबाद

पहला संस्करण }

१९३२

{ मूल्य १।)